



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 भाद्र 1937 (श10)

(सं0 पटना 1009) पटना, वृहस्पतिवार, 3 सितम्बर 2015

गृह (विशेष) विभाग

अधिसूचनाएं

3 सितम्बर 2015

सं0 एल/एच०जी०-1701/2012-9836—भारतीय संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ—(1) यह नियमावली बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2015 कही जा सकेगी।

(1) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य से होगा।

(2) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005 का नियम 4(1) का समादेष्टा संवर्ग निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“ 4(1)

क्र०	पद का नाम	प्रोन्नत/सीधी नियुक्ति/चयनित पद/पद पदस्थापन पर
	समादेष्टा संवर्ग	
01.	वरीय प्रमंडलीय समादेष्टा (पुलिस अधीक्षक/स्टाफ ऑफिसर के समकक्ष)	प्रोन्नत पद
02.	प्रमंडलीय समादेष्टा (अपर पुलिस अधीक्षक के समकक्ष)	प्रोन्नत पद
03.	वरीय जिला समादेष्टा (वरीय पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष)	प्रोन्नत पद
04.	जिला समादेष्टा (पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष)	50 प्रतिशत प्रोन्नति, 50 प्रतिशत सीधी नियुक्ति

3. बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005 के नियम 8 के शीर्षक में शब्द “जिला समादेष्टा” एवं शब्द “प्रमंडलीय समादेष्टा” के बीच “वरीय जिला समादेष्टा” शब्द अंतःस्थापित किये जायेंगे।

4. बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 2005 के नियम-8 (1) (i) में प्रयुक्त अंक एवं शब्द “संवर्गीय वर्ग के 50 प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति से भरे जायेंगे और शेष 50 प्रतिशत पद निरीक्षक से प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।” निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे:-

“(i) संवर्गीय वर्ग के 50 प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति से भरे जायेंगे और शेष 50 प्रतिशत पद निरीक्षक से प्रोन्नति द्वारा भरे जाएंगे:

परन्तु यदि किसी वर्ष में निरीक्षक संवर्ग से जिला समादेष्टा के पद पर प्रोन्नति हेतु योग्य निरीक्षक उपलब्ध न हों एवं अगले वर्ष में भी ऐसे योग्य निरीक्षकों के उपलब्ध होने की संभावना न हो, तो उतनी संख्या में रिक्तियों को सीधी नियुक्ति से भरे जाने की कार्यवाही राज्य सरकार के अनुमोदनोपरांत की जा सकेगी। सीधी भर्ती होने तक ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए, बिहार गृह रक्षा वाहिनी के सेवानिवृत्त जिला समादेष्टा/वरीय जिला समादेष्टा स्तर के अधिकारियों को, विज्ञापन द्वारा चयनित कर सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्नियोजन पर, इन पदाधिकारियों के 65 वर्ष आयु सीमा पहुँचने अथवा उस रिक्ति, जिसके विरुद्ध इन्हें पुनर्नियोजित किया गया है, के सीधी नियुक्ति द्वारा भरे जाने तक, दोनों में जो पहले हो, राज्य सरकार के अनुमोदनोपरांत रखा जा सकेगा। इस प्रक्रिया में यदि पर्याप्त संख्या में सेवानिवृत्त जिला समादेष्टा/वरीय जिला समादेष्टा उपलब्ध न हों वैसी स्थिति में समकक्ष स्तर के बिहार पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को इन्हीं शर्तों के अधीन पुनर्नियोजित किया जा सकेगा।

इस प्रावधान के लिए निम्नलिखित को मिलाकर एक चयन समिति गठित की जाएगी:-

- | | | | |
|-------|--|---|---------------|
| (i) | महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी | — | अध्यक्ष |
| (ii) | अपर-महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी
(अपर महासमादेष्टा यदि पदस्थापित न हों तो
उप-महासमादेष्टा) | — | सदस्य-सह-सचिव |
| (iii) | विशेष सचिव, गृह (विशेष) विभाग | — | सदस्य |
| (iv) | अनुसूचित जाति/जन जाति के प्रतिनिधि
(सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत) | — | सदस्य |

”

5. बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005 के नियम 8 के उप-नियम (3) एवं (4) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे:-

“(3) वरीय जिला समादेष्टा/(4) प्रमंडलीय समादेष्टा/(5) वरीय प्रमंडलीय समादेष्टा”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

The 3rd September 2015

No. L/H.G.-1701/2012- **9836**—In exercise of the powers conferred under proviso to Article-309 of The Constitution of India the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend The Bihar Home Guard Service Rules, 2005,

1. *Short title, extent and commencement*- (i) These Rules may be called The Bihar State Home Guard Service (Amendment) Rules, 2015.

(ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(iii) It shall come into force with immediate effect.

2. The “Commandant Cadre” of Rule-4 (1) of the Bihar Home Guard Service Rules, 2015 shall be substituted by the following :-

" 4(1)

Sl. No.	Name of Posts Commandant Cadre	Promotion/Direct Recruitment / Selected Post/Posting on Post
1.	Senior Divisional Commandant (Equivalent to Superintendent of Police/Staff Officer)	Promotional Post
2.	Divisional Commandant (Equivalent to Additional Superintendent of Police)	Promotional Post
3.	Senior District Commandant (Equivalent to Senior Deputy Superintendent of Police)	Promotional Post

Sl. No.	Name of Posts Commandant Cadre	Promotion/Direct Recruitment / Selected Post/Posting on Post
4.	District Commandant (Equivalent to Deputy Superintendent of Police)	50% Promotional Post, 50% Direct Recruitment

3. The words “Senior District Commandant” shall be inserted between the words “District Commandant” and the words “Divisional Commandant” used in the title of Rule-8 of the Bihar Home Guard Service Rules, 2015.

4. The figures and words “50% of cadre strength shall be filled up by direct recruitment and rest 50% posts shall be filled up by promotion from Inspector” used in Rule 8 (1) (i) of the Bihar Home Guard Service Rules, 2005 shall be substituted by the following:-

“50% posts of cadre posts shall be filled up by direct recruitment and rest 50% posts shall be filled up by promotion from Inspector:

Provided, that if in any year eligible Inspector is not available for promotion from Inspector Cadre to the post of District Commandant and there is no possibility of availability of eligible Inspector in the following year also then the action may be taken to fill up such number of vacancies by direct recruitment after the approval of the State Government. Till the direct recruitment to fill up such vacancies, the officers of the rank of District Commandant/ Senior District Commandant, retired from Bihar Home Guards may be continued on reappointment after the approval of the State Government till such officers attain the age of sixty five years or the regular appointment by direct recruitment to such vacancies against which they are reappointed, whichever is earlier, after the retirement and after selection by the selection committee on the basis of advertisement. In this process, if sufficient number of retired District Commandant/ Senior District Commandant are not available, in these circumstances the retired officers of equivalent rank of Bihar Police Service may be reappointed under these conditions.”

The Selection Committee shall be constituted consisting of the following:-

- (I) Commandant General, Bihar Home Guard- Chairman
- (II) Additional Commandant General, Bihar Home Guard- Member Secretary
(If Additional Commandant General is not postedx Deputy Commandant General)
- (III) Special Secretary, Home (Special) Department- Member
- (IV) Representative of Schedule Caste/ Schedule Tribe- Member
(Nominated by General Administration Department)

5. Sub-Rule (3) and (4) of Rule-8 of Bihar Home Guard Service Rule, 2005, shall be substituted, by the following:-

“(3) Senior District Commandant/(4) Divisional Commandant/(5) Senior Divisional Commandant”

By order of the Governor of Bihar,
JITENDRA KUMAR,
Special Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1009-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>